

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश
ऑडिट भवन, टी सी-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

संख्या: प्र.म.ले.(ले.प.-II)उ.प्र./प्रशा./फा.सं.152/175

दिनांक: 12.11.2025

परिपत्र

मुख्यालय के पत्र सं.-324-Staff (JCM)/03-2025 दिनांक 13.10.2025 के माध्यम से 'Handling of Demonstrations and Strikes-Instructions regarding' के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। मुख्यालय द्वारा प्रेषित निर्देश इस परिपत्र के माध्यम से कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवलोकनार्थ/अनुपालनार्थ प्रसारित किये जा रहे हैं।

Circular

As per Headquarters vide letter No. 324-Staff (JCM)/03-2025 dated 13.10.2025 'Instructions regarding- Handling of Demonstrations and Strikes' have been issued which are being circulated through this circular to the officers/officials of this office for their perusal/compliance.

संलग्नक: यथोपरि

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

संख्या: प्र.म.ले.(ले.प.-II)उ.प्र./प्रशा./फा.सं.152/175/683

दिनांक: 12.11.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ।
2. समस्त वर्गाधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ।
3. व.ले.प.अ./ सामान्य प्रशासन / पी.सी. / रिपोर्ट- I, II & III / आई.टी.ए. / विधि अनुभाग / समन्वय अनुभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ।
4. व.ले.प.अ./ए.एम.जी.-I, II, III एवं IV नियंत्रण अनुभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ।
5. व.ले.प.अ./आई.टी. सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यालय आदेश की एक प्रति Office Website पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. सूचना पट्ट।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

Office of the Comptroller & Auditor General of India
New Delhi

Circular No.35/2025
No.324-Staff (JCM)/03-2025
Dated:- 13.10.2025

To

- All Head of Office of IA&AD (As per mailing list)
- Director General (Commercial)

Subject :- Handling of Demonstration and Strikes – Instructions regarding.

Sir/Madam,

As per extant instructions issued from time to time in order to ensure the seamless functioning of office operations, uphold public order and safeguard the safety of employees and Government property, all forms of demonstrations, protest and unauthorized gatherings within office premises are strictly prohibited.

In continuation of the same, all HoD of IA&AD are requested to bring the contents of O.M. of Ministry of Home Affairs (MHA) issued vide OM No. 24/1/60-Ests (B) dated 25.01.1960 to the notice of all field level associations. Attention is also drawn to the Rangachari instructions, which refer to the restrictions placed on Government servants who are office-bearers of service association, specifically concerning how they deal with matters connected to their associations. In particular, attention of all officials may be drawn to the 1960 guidelines, which were later formally incorporated into the CCS (Conduct) Rules of 1964. These deal with the following:

- An office-bearer or member of an Executive Committee of a Service Association should not deal in his official capacity with any matter concerning that association.
- Demonstrations or strikes that are prejudicial to India's sovereignty, security, or public order are prohibited. This includes those that involve contempt of court, defamation, or incitement to an offense.
- Government servants are forbidden from resorting to or abetting any form of strike, coercion, or physical duress related to their service conditions or the service of other Government servants.
- Government servants are also instructed to keep away from demonstrations organized by political parties.

HoDs may also refer to instructions regarding handling of Demonstrations and Strikes issued vide this office letter No. 131-NGE (JCM)/20-2010 KW-II dated 21.02.2012 and followed by reminder issued vide letter No. 210-Staff (JCM)/03-2025 dated 23.06.2025 for ready reference.

2

It is reiterated that any Government servant engaging himself or participating in any demonstrations/meetings/dharna in violation of the above instructions and/or resorting to or in any way abetting any form of dharna, is liable for appropriate action, both administrative and/or disciplinary.

It is reiterated that instructions given in the said OM and circular, may be strictly adhered to.

Yours faithfully

(Saurabh N. N.)

Director General (Staff)